

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2019/माघ 24, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 732
No. 28] DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019/MAGHA 24, 1940 [N.C.T.D. No. 732

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उच्च शिक्षा निदेशालय

आदेश

दिल्ली, 11 फरवरी, 2019

सं. फा. डीएचई. 4(61)/2010-11/पार्ट फाई./733.- दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्थान (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु कॅपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) अधिनियम, 2007 (2007 का दिल्ली अधिनियम 08) की धारा 13 के साथ पठित धारा 3 के खंड (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, जिसे शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा को अंगीकार करने के लिए 5 मई, 2011 के आदेश के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अभिनामित एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था, को अनुमति प्रदान करते हैं, अर्थात्: -

(क) निम्नलिखित कार्यक्रम जिनके लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का उपयोग शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्रवेश के लिए किया जा रहा है, उन्हें निम्नानुसार जारी रखने की अनुमति है:-

क्र. सं.	राष्ट्रीय स्तर परीक्षा	कार्यक्रम	शैक्षणिक सत्र में सामान्य प्रवेश परीक्षा कोड 2018-19	अभ्युक्ति
1	एनईईटी-पीजी	पीजीएमसी	102	भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अनुसरण में
2	एनईईटी-यूजी	एमबीबीएस	103	
3	एनईईटी-यूजी	बीडीएस	104	

4	एनईईटी-यूजी	बीएचएमएस	154	प्रवेश के लिए 31 जुलाई, 2019 के बाद संयुक्त प्रवेश परीक्षा पेपर-II का स्कोर, यदि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा XII कक्षा + नाटा के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची समाप्त होने के बाद भी सीट खाली रहती है।
5	एनईईटी-यूजी	बीएएमएस	153	
6	पीजीएसी	पीजी आयुर्वेद	196	
7	एनएटीए	बी. आर्च	100	

(ख) शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की अनुमति है: -

क्र. सं.	राष्ट्रीय स्तर परीक्षा	कार्यक्रम	शैक्षणिक सत्र में सामान्य प्रवेश परीक्षा कोड 2018-19	अभ्युक्ति
1	जेईई-मेन 1	बी-टैक	131	
2	एनआईएमसीईटी	एमसीए	105	
3	सीएलएटी-यूजी	बीए / बीबीए एलएलबी	121	
4	सीएलएटी-पीजी	एलएलएम	112	
5	कैट	एमबीए	101	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा के स्कोर के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट समाप्त होने के बाद भी सीटें खाली रहती हैं और सामान्य प्रवेश परीक्षा की तारीख खत्म हो गई है, इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित सेंट्रल मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट में प्रवेश के लिए 31 जुलाई, 2019 के बाद अनुमति दी जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जे.पी. अग्रवाल, निदेशक (उच्च शिक्षा)

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

ORDER

Delhi, the 11th February, 2019

F. No. DHE 4(61)/2010-11/Part File/733.—In exercise of the powers conferred by Clause (g) of section 3 read with section 13 of the Delhi Professional Colleges or Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of Admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007 (Delhi Act 08 of 2007), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby permits the Guru Gobind Singh Indraprastha University which was appointed as the designated agency under the said Act vide order dated the 5th May, 2011 to adopt the National Level Tests for admission to the following Courses/programmes from the academic year 2019-20, namely:-

(a) The following programmes for which National Level Tests are being used for admission as of Academic Session 2018-19, are allowed to continue as under:

Sl. No.	National Level Test	Programme	Common Entrance Test Code in Academic Session 2018-19	Remarks
1	NEET- PG	PGMC	102	In compliance of the Indian Medical Council Act, 1956
2	NEET- UG	MBBS	103	
3	NEET- UG	BDS	104	
4	NEET- UG	BHMS	154	
5	NEET- UG	BAMS	153	
6	PGAC	PG Ayurveda	196	
7	NATA	B.Arch	100	Score of Joint Entrance Examination Paper-II after 31 st July, 2019 for admission, if seat remain still vacant after exhausting the Merit List as prepared on the basis of XII Class + NATA by Guru Gobind Singh Indraprastha University.

(b) For the Academic Session 2019-20, the following National Level Tests are allowed:-

Sl. No.	National Level Test	Programme	Common Entrance Test Code in Academic Session 2018-19	Remarks
1	JEE- Main I	B.Tech	131	
2	NIMCET	MCA	105	
3	CLAT- UG	BA/BBA LLB	121	
4	CLAT- PG	LLM	112	
5	CAT	MBA	101	Since the test date of Common Admission Test is over, Central Management Admission Test conducted by National Testing Agency is allowed after 31 st July, 2019 for admissions, if seats remain still vacant after exhausting the Merit List prepared on the basis of score of Common Admission Test by Guru Gobind Singh Indraprastha University.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor, National of the Capital Territory of Delhi,
J.P. AGRAWAL, Director (Higher Education)